

Date: 06.09.2024

Sr. No. DMR/SE/2024-25/131

The Manager, **BSE SME Platform**Corporate Relationship Department

25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400001

Email: bsesme.info@bseindia.com

BSE Scrip Code:543410

Subject: Newspaper advertisements for conducting the 15th Annual General Meeting through VC (Video Conferencing)/OAVM (Other Audio Visual Means)

Dear Sir / Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published by the Company today i.e. September 06, 2024 in Financial Express (English Language) and in Jansatta (Hindi Language), intimating the dispatch of Notice of the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, which is scheduled to be held on **Saturday**, **September 28**, **2024**, record date for dividend, and other related information.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited

RAVINDE Digitally signed by RAVINDER KUMAR

R KUMAR Date: 2024.09.06
11:16:30 +05'30'

Ravinder Kumar Bhatia Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

#### (CIN. L65100DL1981PLC012431) Regd. Off: 508, 5th Floor, Arunachal Building, Barakhamba Road, East Delhi, New Delhi-110001

NOTICE

The 43" Annual General Meeting ("AGM") of the members of SARNIMAL INVESTMENT LIMITED will be held on Monday 30th September, 2024 at 10.30 A.M. at. "S-524. VIKAS MARG, SHAKARPUR, DELHI-110092 to transact the business mentioned in the notice convening the said meeting which is being sent to the members whose name is appearing in registers on Friday 30th August, 2024 along with the Annual Report for the year ended 31" March, 2024.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Monday 23" September, 2024 to Monday 30th September, 2024 (both the days inclusive) Pursuant to the provisions of section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Standard 2 of the Secretarial Standard on General Meeting, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting) as provided by CDSL on all resolutions as set out in the notice of AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M.)
- Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 29th September, 2024
- Cut- off date for determining the eligibility to vote: Friday, 20th September, 2024.
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting.
- Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be able to exercise their right at the meeting. The Notice of AGM is available on the Company website-
- https://www.jollyplasticindustriesltd.in/ and on the website of CDSL www.evotingindia.com
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Sarnimal Investment Limited

Nitin Agarwal Date: 05.09.2024 Managing Director Place: Delhi

**DMR HYDROENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED** Registered Office: 473, Sector-30, Faridabad, Haryana, India 121003 Tel: +91 129 4360445, Email: cs@dmrengineering.net Website: www.dmrengineering.net, CIN: L74900HR2009PLC039823

### NOTICE OF 15<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

We are pleased to inform you that the 15" (Fifteenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited (the 'Company") is scheduled to be held on Saturday, September 28, 2024 at 11:30 a.m. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the AGM Notice on Thursday, September 05, 2024 in accordance with the General Circular Nos. 20/2020 and 09/2023 dated May 5, 2020 and September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and circulars dated July 11, 2023 and October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and other applicable and related circulars, if any, on the matter issued by the MCA and the SEBI (collectively referred to as "Relevant Circulars"), the holding of the AGM through VC / OAVM has In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 15th

AGM, and Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 have been sent electronically on Thursday, September 05, 2024, to all the shareholders, whose names appear in the register of members of the Company as on the close of business hours on Monday, September 05, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants. Physical copies of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid circulars. In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('SEBI Listing Regulations'), and other applicable laws, the Company is pleased to provide to its members, facility to exercise the right to vote by electronic means in respect to the businesses to be transacted at the AGM through remote e-voting facility before and during the AGM and the same will be provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The members are hereby informed that:

- The remote e-voting period before the AGM shall commence from 09:00 a.m. IST on Wednesday, September 25, 2024, and shall end at 5:00 p.m. on Friday, September 27, 2024. The e-voting module shall be disabled by for voting thereafter,
- The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialization form as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the Any persons who acquires the shares and becomes the member of the
- Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024 needs to refer the instructions given in the Notice of the AGM which is available on the website of the Company at www.dmrengineering.net regarding the login ID and password The members who are holding the shares of the Company as on cut-off date and
- have not cast their votes by remote e-voting before the AGM can exercise their voting rights at the AGM through e-voting system. The manner of voting at the AGM has been provided in the Notice of the AGM.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting before the AGM, but shall not be allowed to vote again at
- Once the vote is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently and cast again.
- The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website www.dmrengineering.net, on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchange i.e. SME Platform of BSE Limited at https://www.bsesme.com/ For the purpose of receiving the dividend, if declared at the AGM, members who
- have furnished/updated their bank accounts with their depository participants, in case the shares held in electronic mode, and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case the shares held in physical form, shall be facilitated with electronic transfer of funds by the Company. In case of nonavailability or non-updation of the bank account details of the members, the Company shall ensure payment of dividend to such members vide dispatch of dividend warrant/cheque as the case may be.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of the AGM. In case of any queries pertaining to evoting procedure or voting at the AGM, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in. The members may also contact Mr. Ravinder Kumar Bhatia. Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company (Phone No.: Tel: +91 129 4360445; Email: cs@dmrengineering.net
- 10. Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of SEBI Listing Regulations and other applicable laws, the record date for determining the entitlement of Members to the final dividend for the financial year ended March 31, 2024 shall be Saturday, September 21, 2024. For DMR Hydroengineering & Infrastructures Limited

Ravinder Kumar Bhatia Date: 06.09.2024 Company Secretary and Compliance Officer Place: Faridabad

## MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215



Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11- 46200444 CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

The Members of the Company are requested to take note that in the notice dated August 28th ,2024 for convening 30 th Annual general meeting (AGM), scheduled to be held on Friday, September 20, 2024 at 11:30 A.M through video conferencing (VC) other Audio-Visual Means ("OAVM")

Please note that in Item No. 6, pertaining to the appointment of Mr. Ravinder Mohan Juneja (DIN: 00006496), the description should be read as & Managing "Director of the Company" instead of "Executive Chairman" The explanatory statement remains unchanged and in the item no 4 there is a typing error it should be read ratify the remuneration payable to the cost auditor for the financial year ending 31st March, 2025 instead of 31st March, 2024. The explanatory statement should also be corrected to reflect as "31March, 2025" other contents of the notice remain

unchanged... This corrigendum shall be an integral part and read in conjunction with the notice dated August 28, 2024. The updated version of the Notice and this corrigendum are available on the website of the company https://mohindra.asia/mfl/notice main.html.

> (Mamta Sharma) Company Secretary

For Mohindra Fasteners Limited

Place: New Delhi Date: 05th September, 2024

Date: September 5, 2024

CIV

KUMARAKRUPPA FRONTIER

HOTELS PVT LTD

CIN: U55101DL2001GOI112143

Regd Off.: Scope Complex, Core-8, 5° Floor, 7

Lodi Road, Delhi -110003

NOTICE is hereby given that the 23" Annual

General Meeting of the Company will be held on

Monday, the 30" September, 2024 at 1100 hours at

Hotel 'The Ashok', Chankyapuri, New Delhi-110021

to transact the business as detailed in the Notice

which has separately been posted to the members.

NOTICE is also hereby given that pursuant to

Section 91 of the Companies Act. 2013, the

Register of Members and the Share Transfer Books

of the Company will remain closed from 26th

September 2024 to 30th September 2024 (both

days inclusive) for the purpose of AGM and

For Kumarakruppa Frontier Hotels Pvt Ltd

ALFA MERCANTILE LIMITED

Iris House, 16 Business Centre,

Nangal Raya, New Delhi-110 046

CIN: U51909DL1985PLC020474

Email Id: alfamercantile@gmail.com

Important Information regarding

dematerialization of your securities

Please note that as per Companies Act, 2013

every shareholder of the company holds their

securities only in demat form. In this regard

you are requested to dematerialize your

shares through contacting your Depository

Participant. The Company has taken the

connectivity with National Securities

Depository Limited (NSDL) and the

Company'sISIN No. is INE142F01011

For more information, please contact company,

GENERAL PUBLIC NOTICE

In the matter of sub-section (3) of Section 13

of Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008 and Rule 17(4) of LLP Rules, 2009

In the matter of

AAJ LEGAL AND MANAGEMENT

CONSULTANCY LLP ("the LLP")

having its registered office at

12H, New Daryaganj Road Opp, Officers

Mess, New Delhi - 110002

Notice is hereby given to the General Public that

the LLP proposed to make an application to the

Registrar of Companies & LLP under section 13/3

2009 seeking confirmation of change of registers

of LLP Act, 2008 read with Rule 17(4) Of LLP Rules.

office of the LLP in terms of the resolution passed at

the meetings of the partners held on Monday 2"

Registered Office from 12H, New Daryagani Road

September, 2024 to enable the LLP to change

Opp Officers Mess, New Delhi - 110002 to

C-2302, Pioneer Presidia, Sector 62, Gurgaon,

24" floor, Tower-C Haryana - 122098 i.e. from

NCT of Delhi to State of Haryana within the

jurisdiction of same Registrar of Companies & LLP.

Any person whose interest is likely to be affected by

the proposed change of the registered office of LLP

may deliver either on the MCA-21 portal

(www.mca.gov.in) by filing investor complaint

form or cause to be delivered or send by registered

post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her objections to the

Registrar of Companies & LLP, NCT of Delhi and

Harvana, Ministry of Corporate Affairs at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019

within 21 days from the publication of this notice

with a copy to the applicant LLP at its present

registered office at the address mentioned below:

CONSULTANCY LLP LPIN - AAS-1804

12H, New Daryaganj Road Opp. Officers Mess, New Delhi-110002, E-Mail: aajconsultancyllp@gmail.com

**FORM NO. URC-2** 

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI

Pursuant to section 374(b) of the Companies

Act, 2013 and Rule 4 (1) of the Companies

(Authorised to Register) Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of Section 366 of the

Companies Act, 2013, an application is

proposed to be made after fifteen days

hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar at Central

Registration Centre (CRC), Indian

Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot

No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar,

District Gurgaon (Haryana), Pin Code-

122050 that "M/s Nexxus Corporation" a

Partnership firm may be registered under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act

2. The principal objects of the company

To carry on the business of manufacturing

wholesale and retail trading of high-quality

and reliable information technology

(IT) and telecom products, ensuring

rigorous testing and quality contro

processes to maintain the highest stan-

A copy of the draft Memorandum and

Articles of Association of the proposed

Company may be inspected at the

Registered Office at 55, 2<sup>nd</sup> West ended

4. Notice is hereby given that any person

objecting to this application may

communicate their objection in writing to

the Registrar at Central Registration

Centre (CRC), Indian Institute of

Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8,

Sector 5, IMT Manesar, District

Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050,

within twenty one days from the date of

publication of this notice, with a copy to

the Company at its registered office.

Date: 05.09.2024 | Place: New Delhi

Marg Lane-2, New Delhi-110030

2013, as a Company limited by shares.

are as follows:

AAJ LEGAL AND MANAGEMENT

For and on behalf of the applicant

CONSULTANCY LLP

PIYUSH AGRAWAL

DIN-01039275

Designated Partner

AAJ LEGAL AND MANAGEMENT

Date 1-06.09.2024

Place:-Delhi

Applican

(Manish Kumar)

CS-Incharge

payment of dividend, if any,

Date: 06.09.2024

Dear Shareholders,

For and on behalf of

Rajesh Bagri

Director

Alfa Mercantile Limited

## SAVE HOUSING FINANCE LIMITED

(Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limited Office: Unit No.761, 7th Floor, Vegas Mall, Plot No.06, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075, E-mail: info@newhabitat.in, info@savehfl.in Web: www.savehfl.in, Mob: +91-9999694526

#### E-AUCTION NOTICE SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE NBFC/HFC UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. he undersigned as Authorized Officer of Save Housing Finance Limited (Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limiter as taken over possession of the under-noted properties U/s 13(4) of the SARFAESI Act, 2002. Public at large is informed that -auction(under SARFAESI Act, 2002) of the charged properties in the below mentioned cases for realization of NBFC/HFC due will be held on "AS" S WHERE IS BASIS. AS IS WHAT IS BASIS AND WHATEVER THERE IS"

	Name of the Borrower	Description of Property	Reserve Price (Rs.) EMD Bid Increase Amount	Date & Time of	Outstanding Dues for recovery of which Property is being sol	
200000000000000000000000000000000000000	. Mr. Nitin Kumar Prabhakar S/o Shri Devender Prabhakar, Mrs. Suman Prabhakar W/o Mr. Nitin Kumar Prabhakar & Mr. Manoj Kumar (Guarantor) S/o Bhuri Singh. Loan A/c No. Uttar Pardesh (Under Physical Possession)		EMD- Rs. 75,000.00	21/09/2024 From 11:00 A.M. to 12 Noon with unlimited extensions of 5 Minutes each	Rs.14,02,444/- Total O/s dues as on 05/09/2024	

ate & Time of inspection of the property : 13-09-2024 between 11.00 A.M. to 4.00 P.M. forms and Conditions of the "Auction are as under: (1) E-Auction will be conducted "On Line" through the NBFC/HFC approved service provide

1 india Private Limited at their Website - www.bankeauctions.com Contact person Name Mithlesh Kumar, Mob - 7080804466, Emailelhi@c1india.com, Helpline Number- 7291981124,25,25 (2) The intending purchasers / bidders are required to deposit EMD amount eithe brough NEFT/RTGS/DD/Transfer/Cheque in Account No. 00000036728174634, in name of the beneficiary SAVE HOUSING FINANCE LIMITED STATE BANK OF INDIA, SME BRANCH, ASAF ALI ROAD(62203) IFSC Code: SBIN0062203 or by way of demand draft drawn in favour of SAVE HOUSING FINANCE LIMITED drawn on any Nationalized or Scheduled Bank payable at DELHI., (3) The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) on the same day of the sale, being knocked down in his/her favour and balance 75% amount of bid amount within 1 days from the date of sale (4) in case of default in payment of the amount by the successful bidder/auction purchaser within the stipulated time, if sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited (5) The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and has the absolute right & discretion to accept or reject any or all offer (S) or adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any asset portion thereof from the action proceedings at any satge without assigning any reasons whatsoever. (6) The other terms and conditions of the auction are published in the following websites, www.bankeauctions.com and www.savehfl.in AUTHORISED OFFICER, SAVE HOUSING FINANCE LIMITED Dated: 05/09/2024, Place: NEW DELHI

YES BANK

### **Yes Bank Limited**

Regd.Off: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai-400055. Branch Office: - Plot No. 1/9, Patel Nagar (West), New Delhi-110008. website: www.yesbank.in

### POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days.

The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec. 13(4) of the said Act read with Rule 9 The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties

will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate. **Date of Notice** Date of symbolic Name of Borrower **Description of Secured Asset** Notice Amount (Rs.)

		U/S.13(2)	` ′	possession
-M/s North Armour Enterprises Pvt Ltd Borrower) (Through its Directors) -Mr. Vijay Narang (Guarantor) -Mr.Manuj Narang (Guarantor) -Mrs. Sashi Narnag (Guarantor) -Mr. Rajeev Narang (Guarantor & Mortgagor)	Floor, Area measuring 30 Sqr Mtr, Category- Janta Flats, in Pocket- L, situated in the layout plan of housing	14-June-2024	Rs.22,70,197.29/- (Rs. Twenty-Two Lakh Seventy Thousand One Hundred Ninety-Seven and Paise Twenty-Nine Only) due as on 12.06.2024	03-Sep-2024
lease note that under Section 13 (8) of the Ac	t, in case if the dues together with all co	sts, charges and exp	enses incurred by us are te	ndered at any time

before the date of publication of the notice for public auction/ Sale then Sale shall not be concluded and secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

Date: 03.09.2024 . Place: Delhi Sd/- Authorized officer. For YES BANK Limited

# INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE

NIT No. 33/EE/WWD/ NOTICE INVITING TENDERS 24-25/E-TENDER Online Premium rate basis tender on behalf of Commissioner, Indore Municipal Corporation for the following

works are invited by the eligible agencies registered with the Government of Madhya Pradesh from public procurement portal www.mptenders.gov.in 1 Lease Period 1 Cost of

SI No.	Tender No.	Name of Work	1. Lease Period	Tender Form 2. E.M.D
a,	2024_ UAD_ 367832_1	Development of Bilawali lake, Khandwa Road, Indore on Public Private Partnership (PPP) model for Operation of water sports activities in defined area including Paddle boating, Sailing, Kayaking, Water Craft Vehicle (Jetski/PWC), Musical Show & Fountain, Boat House, Lake Side Restaurant with ecofriendly structures and other outdoor activities for public space development & recreational activities.	15 Years (including development period) + Extendable Time	₹30,000/- ₹3,00,000/-

S.No.	Description	Date & Time
1.	Start date for Purchase of Tender (Online)	04.09.2024 from 05:30 pm
2.	Last date for Purchase of Tender (Online)	03.10.2024 till 05:30 pm
3.	Last date for Submission of Tender (Online)	03.10.2024 till 05:30 pm
4.	Technical Bid Opening (Online)	04.10.2024 after 05:30 pm
5.	Pre Bid Meeting	17.09.2024, 03:00 PM at Office of Executive Engineer, Drainage Department, IMC, Indore

- (1) Tender Document and other details shall be available on website- https://www.mptenders.gov.in
- (2) Amendment to NIT, if any would be published on website only. The EMD shall be deposited online throught portal via Debit Card/ Credit Card/ Net Banking or
- System Generated challan,
- (4) In case any of the dates specified above is government holiday, day after the same shall be considered. **Executive Engineer** (Sewerage Project)

DP D.P. Jewellers A VENTURE OF D.P. ARHUSHAN CTD

#### D. P. ABHUSHAN LIMITED CIN: L74999MP2017PLC043234

Registered Office: 138, Chandani Chowk, Ratlam, M.P.-457 001 Corporate Office: 19, Chandani Chowk, Ratlam, M.P.-457 001 Telephone: +91-7412-247 122, Email: cs@dpjewellers.com Website: www.dpjewellers.com

#### NOTICE OF THE 7™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, CUT-OFF DATE AND E-VOTING NOTICE is hereby given that the Seventh (7th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of D. P. Abhushan

Limited will be held on Friday, September 27, 2024 at 04.30 P.M. IST at Hotel Balaji, Central Sailana Road, Near Amrit Garden, Opposite GTB Academy School, Barbad Mandir, Ratlam - 457 001, Madhya Pradesh to transact the Ordinary Businesses as set out in the notice of 7" AGM. In accordance with the above mentioned MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62

dated May 13, 2022, the Notice of 7th AGM along with Annual Report 2023-24 have been sent through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that Notice and Annual Report 2023-24 have been uploaded on the website of the Company at www.dpjewellers.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com In light of the MCA Circulars, the shareholders whether holding equity shares in demat form or physical form and who

have not submitted their email addresses and in consequence to whom the notice of 7th AGM and Annual Report 2023-24 could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered by following the procedure 1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share

- certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@dpjewellers.com. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID).
- For Nexxus Corporation Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@dpjewellers.com. Gaurav Shrivastava (Partner) Aurec Ventures LLP (Partner) 3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by
  - proving the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be. Post successful registration of the e-mail address, the shareholder would get soft copies of notice of 7" AGM and

Annual Report 2023-24 and the procedure for e-voting along with the user-id and the password to enable e-voting for 7" AGM. In case of any queries, shareholder may write to the Company at cs@dpjewellers.com. Shareholders are requested to register/ update their complete bank details and Email Ids with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts if shares are held in dematerialized mode by submitting the There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and share transfer books of the

Company is not closed. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 20, 2024 ("Cut-off date"), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through poll paper. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (as amended)

and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means. Resolution(s) passed by Members through remote e-voting and voting at the AGM is/are deemed to have been passed as if they have been passed at the AGM: The remote e-voting will commence on 9:00 A.M. on Tuesday, September 24, 2024 and will end on 05:00 P.M. on

Thursday, September 26, 2024. During this period, the members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote electronically (Remote E-Voting). Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; and b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 7" AGM may also attend the 7" AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the 7th Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of

AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@dpjewellers.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on www.evoting.nsdl.com. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility. In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022

4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Ms. Aashi Neema, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail to cs@dpjewellers.com or may call on +91-7412-490 966/247122 for any further clarification. Place: Ratlam

> Date: 05.09.2024 Aashi Neema, Company Secretary

DEMAND NOTICE

#### **EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.** CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd: Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial

he undersigned is the Authorized Officer of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, ("The Act") read with rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

(EARC") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. In exercise of powers conferred under the Section 13 (12) of the Act read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued a Demand Notice under section 13 (2) of The Act, calling upon the following borrower(s), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice issued to them that are also given below. It connection with above; Notice is hereby given once again, to the Borrowers to pay EARC, within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice, from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following asset have been mortgaged to EARC by the said borrower(s) respectively. **Demand Notice** Details of the

Name Of The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Loan Account Number Date & Amount Trust & Assignor EARC TRUST SC - 448 1. Mr. Rajeev K Mishra, 05.08.2024 2. Mrs. Ranjana Mishra & ICICI Home Finance LAN:- NHNOD00001247569 ₹ 1,44,47,189,45/-Company Limited Description of Property: - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY / FLAT NO. 205 IN TOWER-EON 2'D FLOOR OF THE BUILDING PROPOSED TO BE NAMED AS I NAMED AS

BULLAND ELEVATES SITUATED AT PLOT NO. GH-3A. SECTOR-16C, GREATER NAIDA WEST UTTAR PRADESH. If the said Borrowers shall fail to make payment to EARC as aforesaid. EARC shall proceed against the above secured assets under the section 13 (4) of the Act and applicable rules, entirely at the risks of the said Borrower(s) as to costs and consequences. The borrowers are prohibited under The Act

from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of EARC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Date: 06/09/2024 Sd/ Authorized Officer

Place: GREATER NOIDA WEST For Edelweiss Asset Reconstructions Company Limited Edelweiss

### YORK EXPORTS LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC015416 Regd. Office: D-6 Diwan Shree Apartments, 30 Ferozeshah Road,

NEW DELHI-110001 Email: admin@yorkexports.in, Website: www.yorkexports.in

### NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of

York Exports Limited is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at S-115, Shakarpur, Delhi-92 at 09.00 a.m. in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated December 28, 2022, May 5, 2022, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and SEBI Circulars dated January 05, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the F.Y. 2023-24 have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.yorkexports.in and on the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Notice of AGM is also available on the website

The remote e-voting window will open at 10.00 A.M. on 27th September, 2024 and closed at 05.00 PM. on 29th September, 2024.

of CDSL at www.evotingindia.com.

The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL and Evoting shall not be allowed thereafter. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cutoff date i.e 23rd September, 2024, may cast their vote electronically through electronic

voting system of the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the businesses as set out in the Notice of AGM. Any person who has not registered his email address with the company, respective depository or Registrar can get the same registered in the manner as specified in the notice of 42nd Annual General Meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after email of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2024, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at beetalrta@gmail.com.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have cast

their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote again. Further pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements)

Regulations, 2015 with stock exchange(s), the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Tuesday, 24th September 2024 to Monday, 30th September 2024 (Both days inclusive for the said AGM). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. Any query/grievance connecting with voting by electronic means, should be addressed to the Company Secretary at email address yorkexportsindia@gmail.com.

For YORK EXPORTS LIMITED

(ASHWANI DHAWAN) Place: New Delhi **Managing Director** Date: 06.09.2024 DIN: 00264986

#### R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

Regd. off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-44441111 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, **EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE** 

held on Friday, September 27, 2024 at 12.30 P.M (IST) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Video Means (OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') & the Rules made thereunder & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") read with General circulars No 02/2022 dated 05.05.2020 and General circulars No. 02/21 dated 03.01.2021, General circulars No. 20/2021 dated 08. 12.2021, General circulars No. 21/2021 dated 14.12.2021 & General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 & other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively referred as relevant circulars) without the physical presence of the members. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned guorum w/s 103 of the Act.

37th AGM Notice along with the Annual Report 2023-24, has been sent to all the members of the Company whose email address is registered with the Company/ DP(s) through electronic mode. The same will also be available on the Company's website www.rrfcl.com & on BSE website www.bseindia.com & on the Company's RTA, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) website at https://instavote.linkintime.co.in.

Notice pursuant to section 91 of the Act, and Regulation 42 & 47 of 'SEBI LODR' is hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024, (both days inclusive) Manner of registering/ updating email addresses for obtaining AGM Notice, Annual Report 2023-24 and/ or login credential for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting

Members who have not registered their email address and in consequences the Annual Report, AGM Notice & e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number registered with LIIPL, by accessing the link enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel: 022 - 49186000. Members are requested

to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for senging the soft copy of the notice and e-voting instructions along with user ID and Password Alternatively, members may send an e-mail request at the email id cs@rrfcl.com along with

scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions. In order to enable the Company to comply with MCA circulars and to participate in the green initiative in corporate governance, members are requested to register their email addresses

Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions. Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM. a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM

in respect of shares held in electronic form with their DP(s) permanently for sending the

through electronic voting system (e-voting) b) The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their

email addresses in providing in the notice of AGM. c) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able

members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ LIIPL/ DP(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to notice of AGM.

d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the

e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ Electronic copies of the 37th AGM Notice & the Annual Report of the Company for the FY 2023-24 has been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company

Depository participant(s). The 37th AGM Notice and the Annual Report for the FY 2023-24 is also available on the Company's website www.rrfcl.com. Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date of 20th September, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary or/ and Special Business(es) as set out in through electronic voting system of M/s Link Intime India Private

Limited the 37th AGM Notice. The Members are informed that :

Place: New Delhi

a) The electronic transmission of Annual Report, 37th AGM Notice & other documents has been completed on 5th September, 2024. b) E-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2024 at 9 am & ends on Thursday 26th September, 2024 at 5 pm. Remote e-voting module shall be disabled post

this date and time i.e., 26th September, 2024 at 5 pm. c) In case of any queries, members may visit Help and FAQ section & e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call them at :- Tel : 022 - 49186000.

For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited Rajat Prasad Managing Director

DIN: 00062612

financialexp.epapr.in

For, D. P. Abhushan Limited

New Delhi

04.09.2024

Indore Municipal Corporation

# जनसता

### एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन : L65923DL1984PLC019608 पंजीकृत कार्यालयः 3/14ए, विजयनगर दोहरी मंजिल, दिल्ली-110009 संपर्क नंबर 9311480885, वेबसाइटः www.efficientindustrial.in ईमेल आईडी: efficientindustrial@gmail.com

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 40वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष कार्यवाही करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुलाई जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों का रिजस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से 24 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगी।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी 04 सितंबर 2024 को कंपनी के पास उपलब्ध है। नोटिस के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट

www.efficientindustrial.in के साथ-साथ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.msei.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

ए ) 40वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए जाएंगेः

बी) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 (सुबह 09:00 बजे) आईएसटी से शुरू होगी। सी ) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 29 सितंबर 2024 (शाम 05:00 बजे) आईएसटी पर समाप्त होगी। डी ) कृपया ध्यान दें कि उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी।

ई) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रसारित होने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com या efficientindsutrial@gmail.com पर अनुरोध भेजकर यूजर-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है। सदस्य ध्यान दें किः

) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम स्विधा के माध्यम से 40वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार (iv) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर 2024 को सदस्यों / लाभार्थी

मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ बैठक में एफ.) उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और प्रस्तावों के लिए इस नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल आईडी के

पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं i) यदि शेयर भौतिक मोड में हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) beetalrta@gmail.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें। ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईएडी-सीएलआईडी(16 अंकों की डीपीआईएडी न सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता स्थिति की

प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) को beetalrta@gmail.com पर प्रदान करें। जी.) कृपया ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए http://www.evotingindia.com पर जाएं। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट तरीके से वोटिंग ("रिमोट

ई-वोटिंग") का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.efficientindustrial.com और सीडीएसएल की http://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग की सुविधा भी एजीएम ("इंस्टा पोल") में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, वे इंस्टा पोल के जरिए एजीएम में वोट कर सकेंगे। ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के जरिए

जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगि क्रेडेंशियल तैयार कर सकते हैं। वही लॉगिन क्रेडेंशियल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग

लेने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चूंकि कोई अंतिम लाभांश नहीं है, इसलिए लाभांश अधिदेश जमा करने के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो तो सदस्य कंपनी से डुप्लिकेट वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सहित एजीएम में ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न या शिकायत निम्नलिखित पते,नाम :- श्री पुनीत मित्तल,(महाप्रबंधक) ई-मेल आईडीः beetalrta@gmail.com, फोनः 011- 29961282, फैक्स नंबर: 011-29961284 पर की जा सकती है।

दिनांकः 6 सितंबर, 2024

स्थानः नई दिल्ली

कृते एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड हस्ता /-स्वाति तोमर अनुपालन अधिकारी सह कंपनी सचिव

### डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 473, सेक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत 121003 टेलीफोनः +91 129 4360445, ईमेलः cs@dmrengineering.net बसाइटः www.dmrengineering.net, सीआईएन: L74900HR2009PLC039823

### 15वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डीएमआर हाइड्रोइजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेंड ("कंपनी") के सदस्यों की 15वीं (पंद्रहवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित होने वाली है, ताकि गुरुवार, 05 सितंबर, 2024 को एजीएम नोटिस में बताए अनुसार कारोबार किया जा सके। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 5 मई, 2020 और 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपन्न सं: 20 / 2020 और 09 / 2023 और मारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी 11 जुलाई, 2023 और 07 अक्टूबर, 2023 के परिपर्ज़ों के अनुसार तथा एमसीए और सेबी द्वारा जारी मामले पर अन्य लागू और संबंधित परिपर्वों, यदि कोई हो, (सामृहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संवर्भित), वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 15वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां गुरुवार, 05 सितंबर, 2024 को सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई हैं, जिनके नाम सोमवार, 05 सितंबर, 2024 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रिजरट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार शेयरवारकों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 44 और अन्य लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जाएगी। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे IST से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉल्चल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैंट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही एजीएन से पहले और उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है एजीएम की सूचना और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखने के लिए एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लेना होगा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के संबंध में कंपनी की वेबसाइट www.dmrengineering.net पर चपलब्ध है।

जो सदस्य कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के शेयर धारण कर रहे हैं और जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम में अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एजीएम में मतदान का

तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। कोई सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा योट

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदलने और दोबारा डालने

की अनुमति नहीं दी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dmrengineering.net एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई

लिमिटेड के एसएमई प्लेटफॉर्म https://www.bsesme.com/ पर उपलब्ध है। एजीएम में घोषित लामांश प्राप्त करने के उद्देश्य से, जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने बैंक खाते प्रस्तुत / अपडेट किए हैं, और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ, उन्हें कंपनी द्वारा निधियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा दी जाएगी। सदस्यों के बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता या अद्यतन न होने की स्थिति में, कंपनी ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंटध्येक के माध्यम से लाभांश का

भुगतान सुनिश्चित करेगी। ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में "नोट्स" अनुभाग देखें। ई-वोटिंग प्रक्रिया या एजीएम में मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक www.evoling.nsdl.com के खाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नबर 18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdf.co.in</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं | सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी श्री रविंदर क्मार भाटिया (फोन नं. +91 129 4360445, ईमेल: cs@dmrengineering.net से भी

संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी लिस्टिंग विनियमन और अन्य लागू. कानुनों के विनियमन 42 के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लामांश के लिए सदस्यों की पावता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शनिवार 21 सितंबर 2024 होगी।

कृते डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंक्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

रविन्द्र कुमार भाटिया दिनांक: 06.09.2024 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी स्थानः फरीदाबाद

सार्वजनिक सूचना **पंजीकृत कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा—कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई—400051 **ficici Home Finance पजाकृत कार्यालय** : आइसाआइसाआइ वयर टावरा, बाज्य जुटा का राज्य, जाज्य हुए। का प्राप्त कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059

शाखा पता : द्वितीय तल, एससीओ-319, सेक्टर-29, गुरूग्राम, हरियाणा-122001 निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफसी") से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम्, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन निम्नवर्णित तिथि को एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, तथापि यह उनको सुपूर्द नहीं की जा सकी और अतएव एतद्द्वारा उनको को इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार / सह—कर्जदार / गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति / प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि / सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
te	राकेश यादव (कर्जदार), पिंकी यादव (सह–कर्जदार), एस ओ बीरेन्दर सिंह, 660 22 09 शिवाजी नगर गुरूग्राम, हरियाणा–122001/LHRWI00001321625	फ्लैट नंबर बी—320, तृतीय तल, टावर बी, खसरा नंबर 188 एवं 189, तिजारा होम्स, ग्राम बलियावास, तहसील भिवाड़ी, राजस्थान—301019, क्षेत्रफल परिमाप 550 वर्ग फीट, चौहद्दी — उत्तर : रोड, दक्षिण : अन्य भूमि, पूरब : रोड, पश्चिम : अन्य भूमि	17−08−2024 ₹5. 3,11,493.34/-	03/08 2024
2.	मोहम्मद आरिफ खान (कर्जदार), रिहाना (सह–कर्जदार), मकान नंबर 260, गिरि मार्किट त्यागी मार्किट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश/LHGUI00001541342	सम्पत्ति सं. 4, खसरा नंबर 397, बलराम नगर एक्सटेंशन—1, ग्राम धौरौती खुर्द, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102, क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज, चौहद्दी — उत्तर : प्लॉट नंबर 5 सी, दक्षिण : प्लॉट नंबर 3 सी, पूरब : प्लॉट का बाकी हिस्सा, पश्चिम : रोड 12 फीट	₹5.	08/08 2024

कें प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड तेथि : 06-09-2024, स्थान : भिवाड़ी, गाजियाबाँद

equitas

### इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज- II, अन्ना सलाई, चेन्नई- 600002

मांग सूचना -सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

रतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/**इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड** (ईएफएल)<sub>/</sub> इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ईएसएफबी) से ऋण लिया है। उक्त उधारकर्ता किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुरक्षित अचल संपत्ति / यों, ऋण और उधारकर्ता / ओं द्वारा देय तिथि के अनुसार बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता(ओं) और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनयम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और कथित संपत्ति से निपटने के लिए नहीं। इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत किसी भी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति / संपत्ति यों का कब्जा लेंने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है।

क्रं सं.	कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) का नाम (शाखा का नाम)	मंग सूचना दिनांक और राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	शाखा : पानीपत एल.नं. : SEPNIPT0330291 उधारकर्ताः श्री विजय कुमार सह—उधारकर्ताः श्रीमती पूनम	05—08—2024 एवं 508614/—	गौशाला वाली कॉलोनी, सफीदों, नगर निगम सीमा सफीदों, तहसील सफीदों, जिला जींद, हरियाणा के भीतर में स्थित गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जो 150 वर्ग गज = 5 मरला की आवासीय संपत्ति होने के नाते कुल भूमि का 5/83 हिस्सा है,खेवट संख्या 1161 खाता संख्या 1347 में शामिल जिसका माप 5 कनाल 3 मरला है,जो कि म्यूटेशन 23053 दिनांक 05.07.2021 के साथ पठित डीड संख्या 2182 दिनांक 08.01.2021 के अनुसार उप—पंजीयक सफीदों जिला जींद के कार्यालय में पंजीकृत और सफीदों की जमाबंदी वर्ष 2014—2015 के लिए है, जिसकी निम्नलिखित <b>सीमार्थे है: - उत्तर में:</b> 50 फीट 17 फीट चौड़ी गली, दिशाण में: 50 फीट, संजू पुत्र सुंदर सिंह का घर, <b>पूर्व में:</b> 27 फीट। करमबीर सिंह का घर, <b>पारिचम में:</b> 27 फीट। प्रताप जांगड़ा का घर, माप: 150 वर्ग गज, सफीदों के उप—पंजीकरण जिले और जींद के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।
2.	शाखा : सिरसा एल.नं. : SEIBSRS0365309 उधारकर्ता : श्री पवन कुमार	05—08—2024 एवं 317954/—	गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जो एक आवासीय संपत्ति मकान नंबर 542 ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीएच—1, जिला सिरसा, हरियाणा है और 40 वर्ग गज की माप वाली संपत्ति आईडी एसआरएस/बी21/3119 बिक्री विलेख संख्या 194 दिनांक 06.05.2020 के अनुसार उप—पंजीयक जिला सिरसा के कार्यालय में पंजीकृत है जिसकी निम्नलिखित <b>सीमारों है:- उत्तर में:</b> मकान नंबर 537 15',

दिनांकः ०६.०९.२०२४, स्थानः सिरसा, जींद

सह–उधारकर्ताः श्रीमती

विमला देवी

## एचएफसीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ८, इँलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन — 173213 (हिमाचल प्रदेश) दूरभाष सं.: 91-1792-230644, फैक्स नं.: 1792-231902, वेबसाइट : www.hfcl.com, ई-मेल आईडी : secretarial@hfcl.com, सीआईएन : L64200HP1987PLC007466

दक्षिण में: रास्ता 15', पूर्व में: मकान नंबर 543 33', परिचम में: मकान नंबर 541 33', मापः 40 वर्ग गज,

अधिकृत अधिकारी- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सिरसा के उप-पंजीकरण जिले और सिरसा के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।

37वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम"), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग, अभिलेख तिथि तथा बही समापन की सूचना

(यह एजीएम के संबंध में 03 सितंबर 2024 को प्रकाशित हमारी पूर्ववर्त्ती सूचना के आगे की सूचना है) एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. एचएफसीएल लिमिटेड (''कंपनी'') की 37वीं वार्षिक साधराण सभा सोमवार 30 सितम्बर 2024 को मध्या. 11.00 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य—श्रव्य साधनों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजन की सूचना दिनांक 02 सितंबर 2024 में निर्धारितानुसार साधारण तथा विशिष्ट व्यवसायों का लेन-देन करने के लिये आयोजित की जायेगी। यह आयोजन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों संख्याक्रमण 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 19 / 2021, 21 / 2021, 02 / 2022, 10 / 2022 एवं 099 / 2023 दिनांकित क्रमशः 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 एवं 25 सितंबर 2023 (''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 2020, दिनांक सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 त्तनवरी 2021

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 2022 सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी - पीओडी - 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम''), उसके अंतर्गत विरचित नियमावली तथा सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (''सेबी सूचीकरण विनियमावली'') के प्रयोज्य प्रावधानों के उपयुक्त अनुपालन में, किया जा रहा है।

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली २०१४ के नियम १८ के साथ पठित अधिनियम की धारा १०१ व १३६ के प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 की कंपनी के विवरण एवं वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में निष्पादित होनेवाले व्यवसाय का निर्धारण करनेवाली सूचना, केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरीज / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस / कम्पनी / आरटीए के साथ पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम शुक्रवार 30 अगस्त 2024 के अनुसार कंपनी के सदस्यों / डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com

पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। ई—मेलों के माध्यम से एजीएम की सूचना प्रेषण—कार्य 05 सितंबर 2024 को पूरा कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") तथा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

यथा संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली २०१४ के नियम २० के साथ पठित अधिनियम की धारा १०८ तथा सेबी सूचीकरण विनियमावली के विनियम 44 तथा सामान्य सभाओं पर साचिविक मानक (''एसएस–2'') के अनुपालन में, भौतिक पद्धति अथवा अभौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल'') द्वारा उपलब्ध कराई गई एजीएम स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र किसी स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

1) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय का लेन–देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करके किया जा सकता है; 2) रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को (प्रातःकाल 9.00 बजे भा.मा.स.) आरंभ होगी;

3) रिमोट ई-वोटिंग रविवार 29 सितंबर 2024 को (सायंकाल 5.00 बजे भा.मा.स.) पर समाप्त होगी तथा इस समय के बाद स्वीकृत नहीं होगी; रिमोट ई—वोटिंग द्वारा एवं / अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट—ऑफ तिथि सोमवार 23 सितंबर 2024 है। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट—ऑफ तिथि अर्थात सोमवार 23 सितंबर 2024 के अनुसार कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे।

5) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 23 सितंबर 2024 के अनुसार शेयरधारित करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा secretarial@hfcl.com पर कंपनी को अथवा एमसीएस शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट लिमिटेड (यूनिट: एचएफसीएल लिमिटेड) के आरटीए को admin@mcsregistras.com पर एक निवेदन, निवेदन में अपने फोलियो नं. / डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करते हुए, भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए वह अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है; 6) सदस्यगण ध्यान रखें कि

क) सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के उपरांत, बाद में उसे इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एनएसडीएल प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग की सुविधा ई-एजीएम में भी उपलब्ध होगी;

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया है वे एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे लेकिन उन्हें एजीएम में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा;

घ) जिस व्यक्ति का नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 23 सितंबर 2024 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे:

ड) यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है तो उसे केवल जानकारी के लिए ही इस सुचना को लेना चाहिये। 7) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा अनुदेश, ई-एजीएम की सूचना तथा प्रत्येक शेयरधारक को प्रेषित ई-मेल में दिये गये

8) रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न अथवा समस्या के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com पर 'डाउनलोड्स' खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग युजर मैन्युअल अथवा सदस्यों के लिए प्रायः पुछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्युज) का संदर्भ लें या टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर कॉल करें या सश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), टेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापित बापत मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013 से उनके पदनामित ई-मेल पते मअवजपदह / देकसण्बवउ पर सम्पर्क करें।

9) कंपनी के निदेशक मंडल ने 20: अर्थात रु. 0.20 / – (पैसा बीस मात्र) प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य रु. 1 / – प्रत्येक की दर से एक अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर अंतिम लाभांश का भूगतान एजीएम के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कृपया आय कर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में शेयरधारकों को भेजे गये हमारे ई-मेल संचार दिनांक 08 जून 2024 का संदर्भ लें।

10) कंपनी ने एजीएम में अनुमोदित होने पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार 23 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित किया है। 1) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी विधि के अंतर्गत समग्र रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग का

पर्यवेक्षण करने के लिये श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस–3616 एवं सीओपी नं. 3169), कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया 12) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत सदस्य उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना जरुरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की

व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों द्वारा पॉक्सीज की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिये उपलब्ध नहीं होगी और इस प्रकार प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति पर्ची तथा एजीएम की मार्ग निर्देशिका इस सुचना के साथ संलग्न नहीं है। फिर भी, अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्त करने के लिये इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने तथा रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये, उनसे आग्रह है कि बोर्ड के प्रस्ताव की एक सत्यापित सत्य प्रति scrutinizer@hfcl.com पर ई-मेल द्वारा पर्यवेक्षक के पास तथा एनएचडीएल को मार्क की गई उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर तथा secretarial@hfcl.com पर कंपनी 13) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते को पंजीकृत / अद्यतन नहीं करनेवाले शेयरधारक, विधिवत भरे और हस्ताक्षरित

फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, केवाईसी विवरण के पंजीकरण या उसके परिवर्तन/अद्यतनीकरण के लिए फॉर्म) भेजकर इसे पंजीकृत/अद्यतन कर सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर कंपनी के आरटीए admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के सचिवीय विभाग को secretarial@hfcl.com पर ई—मेल द्वारा उपलब्ध है। अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करने के लिए संपर्क कर सकते हैं / उन्हें सूचित कर सकते हैं। मतदान के परिणाम पर्यवक्षेक की समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान का परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com पर

तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com पर, अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वोटिंग परिणामों की घोषणा के उपरांत, बैठक के समापन के 2 कार्यकारी दिनों के भीतर प्रदर्शित किया जायेगा। वांछित संख्या में मतों की प्राप्ति पर प्रस्तावों को 37वीं वार्षिक साधारण सभा की तिथि अर्थात् 30 सितंबर 2024 को पारित माना जायेगा।

एतद्दवारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सेबी सुचीकरण विनियमावली के विनियम 42 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 91 के अनुपालन में, सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंशॉतरण बहियाँ, एजीएम एवं लाभांश के उद्देश्यार्थ मंगलवार 24 सितंबर 2024 से लेकर के सोमवार 30 सितंबर 2024 (दोनों दिवस/तिथियां सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कृते एचएफसीएल लिमिटेड हस्ता./-स्थान : नई दिल्ली (मनोज बैद) दिनांक : 05 सितंबर, 2024 अध्यक्ष तथा कंपनी सचिव

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: एल74899डीएल1995पीएलसी064007, पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com, ईमेल : investor.relations@grmrice.com, दूरभाष : 011-47330330

वार्षिक साधारण सभा तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') का आयोजन, शनिवार 28 सितंबर 2024 को अप. 12.30 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-वीडियो संसाधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, वार्षिक साधारण सभा की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिये किया जायेगा, जो कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाहित है, केवल इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है, जिनकी ईमेल आईडी, सूचना के प्रेषण की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, कंपनी / डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है। कंपनी ने सभी सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 04 सितंबर 2024 को पूर्ण कर लिया है तथा सूचना व वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध करायी गयी हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 44 तथा आईसीएसआई द्वारा सामान्य सभा पर निर्गत साचिविक मानक (एसएस-2) के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुये एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सदस्यगण जो कि कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर 2024 के अनुसार भौतिक प्रारूप अथवा अभौतिक प्रारूप में

अंशों का धारण किये हुये हैं, वे 30वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों पर

ई-वोटिंग करने के अधिकारी होंगे। रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम में बोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सदस्यों की 21 सितंबर 2024 योग्यता के निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 25 सितंबर 2024 (09.00 बजे) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने का दिवस, तिथि एवं समय रिमोट ई-वोटिंग समापन का दिवस, तिथि एवं समय 27 सितंबर 2024 (05.00 बजे)

इसके बाद ईवोटिंग मॉडयूल अक्षम कर दिया जायेगा।

दिनांक : 05-09-2024

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2024 के अनुसार अंशों का धारण करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर एक विनती भेजकर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिये अपने विद्यमान युजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरणों के लिये कृपया एजीएम की सूचना का संदर्भ ग्रहण करें। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिये, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिय तेजी से पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, रविवार 22 सितंबर 2024 से लेकर के शनिवार 28 सितंबर 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक, 30वीं वार्षिक सामान्य सभा के उद्देश्यार्थ, बंद रहेंगी।

कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : दिल्ली

## ※ Equinox India

इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड (पहले इंडियाब्ल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

(सीआईएन: L45101HR2006PLC095409) **पंजीकृत कार्यालयः** कार्यालय संख्या 01-1001, वीवर्क, ब्लू वन स्ववायर उद्योग विहार फेज ४ रोड गुरुग्राम-122018 ई-मेल: secretarial@ibrealestate.com, दरमाम: 0124- 4609559; वेबसाइटः www.equinoxindia.com

18वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और पुस्तक बंद करने की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), उसके तहत बनाए गए नियमों और संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड **('सेबी') ('प्रासंगिक परिपत्र')** द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इक्किनोंक्स इंडिया डेक्लपमेंट्स लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('कंपनी') के सदस्यों की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कारोबार करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना, जैसा कि 04 सिलंबर, 2024 के नोटिस में कहा गया है, उक्त एजीएम बुलाई जाएगी। वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के गुरुग्राम, हरियाणा रिधत पंजीकृत कार्यालय में संचालित मानी जाएगी।

उपरोक्त प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 18वीं एजीएम बुलाने की सूचना और विलीय वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट **('वार्षिक** रिपोर्ट') 05 सितंबर, 2024 को ईमेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी /रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के इच्छक सदस्य एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं। लपरोक्त दरलावेज कंपनी, आरटीए और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों क्रमश: www.equinoxindia.com, https://evoting.kfintech.com,

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 10 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 18वीं एजीएम के उद्देश्य से वार्षिक समापन के लिए शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

अधिनियम की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 तथा संबंधित परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस में बताए गए प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम के दौरान वीसी सुविधा, रिमोट ई-बोटिंग सुविधा और इंस्टा-पोल (ई-बोटिंग) सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') की सेवाओं का लाम प्राप्त किया है। वीसी / ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम बुलाने के नोटिस में दी गई है। नोटिस में शेयरधारकों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में निर्देश / विवरण भी शामिल हैं, जो भीतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं।

इसके अलाया, यह सुचित किया जाता है कि केवल वहीं व्यक्ति जिसका नाम शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रिजस्टर / लाभाधी मालिकों के रिजस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वॉटिंग या इंस्टा पोल के माध्यम से वॉटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

रिमोट ई-बोटिंग और वीसी / ओएवीएम सुविधा के बारे में महत्वपुर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

https://emeetings.kfintech.com/
व्यक्तिगत सदस्यों के लिए:
https://www.evoting.nsdl.com/ (एनएसडीएल के साथ डीमेंट मोड में प्रतिभृतियों को रखना)
https://www.cdslindia.com/ (सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियों को रखना)
गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:
https://evoting.kfintech.com
शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024। सदस्यों के मतदान अधिकार 20 सितंबर, 2024 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 10:00 बजे
गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे

सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए बोट नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, जिन सदस्यों ने रिमोट ई-बोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें सक्षम करने के लिए एजीएम के दौरान इंस्टा—पोल (ई—वोटिंग) सुविधा भी जपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के जरिए अपना वोट ढाला है, वे वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

मीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है या वे व्यक्ति जो एजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2024 तक शेयर रखते हैं और जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे एजीएम नोटिस में उठिलखित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त / जेनरेट कर सकते हैं और एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग या इंस्टा-पोल (ई—वोटिंग) के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। एजीएम नोटिस में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जो कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.equinoxindia.com पर और स्टॉक एक्सचेंज(ऑ) की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है।

संलग्न सुचना और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ई—मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः

ए) मौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर- 1 (कंपनी और आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध) क्रमशः www.equinoxindia.com/agm-notice और https:// Iris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx, पर) विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ कॅफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली ईंदराबाद, रगारेड्डी, तेलंगाना भारत –500 032 पर जमा करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट करें।

बी) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकत / अपबेट करें, जहां वे अपने डीमैंट खाते रखते हैं।वे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके या किंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकृत अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, पैन, ढीपी आईडी, क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर और उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या प्रदान करके evoting@kfintech.com पर ई—मेल भेजकर भी अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं। ।

सुश्री नेहा शर्मा (सदस्यता संख्या F13072) प्रोपराइटर मैसर्स नेहा एस एंड एसोसिएटस, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वीसी / ओएवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से एजीएस में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य श्री पीएसआरसीएच मृति, वरिष्ठ प्रबंधक – आरआईएस, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गांचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, टोल फ्री नंबर 1800-309-4001; ई-मेल आईडी: murthy.psrch@kfintech.com या evoting@kfintech.com से संपर्क कर सकते हैं।

इविवनींक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड के लिए (पूर्व में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड)

चंद्र शेखर जोशी कंपनी सचिव

स्थान गुरुग्राम दिनांकः सितम्बर 5, 2024

www.readwhere.com